

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

एवं

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

द्वारा

व्यक्तित्व विकास एवं संचार-कौशल और साक्षात्कार तकनीक

( Personality Development, Communication and Interview Techniques)

पर कार्यशाला

आज दिनांक 26 फरवरी 2016 को मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कम्प्यूनिकेशन स्किल एवं इन्टरव्यू तकनीकी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आयोजित वर्कशॉप का उद्घाटन डॉ0 आई0एम0रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश और डा0 सिधान्शु राय, प्रभारी, प्लेसमेन्ट सेल, सी0एस0जे0एम0यू0 कानपुर द्वारा किया गया। जिसमें छात्रों को पर्सनलिटी डेवलपमेन्ट, कम्प्यूनिकेशन एवं इन्टरव्यू टेक्निक के बारे में विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी गयी, जिससे जॉब फेयर में सम्मिलित होने वाले छात्र क्षमता को बढ़ाकर साक्षात्कार में प्रस्तुत कर सकें।

डॉ0 आई0एम0रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने स्वरोजगार पर बल दिया और उन सभी क्षमताओ जैसे संचार क्षमता, व्यक्तित्व-विकास को विकसित करने को कहा जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते है।

डा0 सिधान्शु राय, प्रभारी, प्लेसमेन्ट सेल, सी0एस0जे0एम0यू0 कानपुर, ने इन्टरव्यू में सफल होने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने पर बल दिया और कहा की आत्मविश्वास एवं उचित प्रस्तुतीकरण ही व्यक्ति को उचाई तक पहुंचा सकता है।

श्री सुशील मिश्रा, व्यक्तित्व-विकास एवं संचार के अनुभवी वक्ता ने छात्रों को इन्टरव्यू में सफल होने के गुर बताये और साथ ही साथ यह भी बताया कि कम्प्यूनिकेशन की क्षमता का कैसे विकास करें। श्री मिश्रा जी ने पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से साक्षात्कार की तकनीक के बारे में बताया कि साक्षात्कार देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

डा0 सिधान्शु राय ने बताया कि प्लसमेन्ट ड्राइव में मुख्य दिक्कत छात्रों की कम्प्यूनिकेशन स्किल होती है जिसकी वजह से छात्र-छात्राएँ सही तरीके से अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाते है इसी को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय प्लेसमेन्ट सेल अब निश्चित अन्तरालों पर इन्टरव्यू तकनीक, कम्प्यूनिकेशन स्किल, के बारे मे विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दिलवायेगा जिसमें उन छात्रों मे क्षमता का विकास किया जा सके।

डा0 सिधान्शु राय ने सुचित किया कि इसी क्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर में यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती-कानपुर चैप्टर

एवं स्पार्क इंटरटेंनेमेंट्स के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 1 मार्च व 2 मार्च, 2016 को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रतिभागियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा।

डॉ० राय ने यह भी सूचित किया की उक्त कार्यक्रमों की जानकारी [www.csjmplacement.org](http://www.csjmplacement.org) पर प्राप्त कर सकतेहै।

डॉ सिधान्शु राय जी द्वारा दिए वक्तव्य का डॉ० आई०एम०रोहतगी जी ने एक सराहनीय प्रयास बताया और कहा कि आगे आने वाले समय में हम लोग मिलकर कानपुर के छात्रों हेतु उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करायेंगे और यह भी सूचित किया कि साथ ही साथ एक सेल (cell) भी स्थापना करेंगे जहाँ से छात्र पूर्ण रूप से जानकारी एवं सुझाव प्राप्त कर सकें।

इस अवसर पर श्री ए०के०सिन्हा, सचिव मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, स्पार्क इंटरटेन्नेट के श्री शैलेश श्रीवास्तव, एवं वैभव मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

सधन्यवाद

डॉ० आई०एम०रोहतगी

अध्यक्ष

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

डा० सिधान्शु राय

प्रभारी प्लेसमेंट सेल

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय